

Date: 17th June, 2023

BSE Limited, Floor – 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai –400 001

Scrip Code: 505729

Sub: Newspaper advertisement on Notice given to the Shareholders of transfer Dividend and Equity Shares of the Company to The Investor Education and Protection Fund.

Dear Sir/ Madam,

Notice given to the shareholders whose dividend and equity shares are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). Pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013, read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, the Company has published notice in the newspapers intimating the equity shareholders who have not claimed dividend for a period of seven (7) consecutive years from the financial year 2015-16 onwards and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Account.

The scan copies of the advertisement, as annexed, pertaining to Notice of transfer of equity shares and dividend of the Company to IEPF are published in the following newspapers:

- The Financial Express (English National Daily Newspaper-All Edition);
- The Jansatta (Hindi Daily Newspaper-Delhi Edition).

The newspaper advertisements are also available on the website of the Company at www.singerindia.com.

We request you to take the above on record and that the same be treated as compliance under the applicable regulations.

Thanking you,

For Singer India Limited



Rickee Bisla Company Secretary

Encl: As above

ISO 9001:2015

SINGER INDIA LIMITED

Registered & Head Office: A-26/4, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi - 110044.

Tel.: +91-11-40617777 | Fax : +91-11-40617799 | Toll Free No. 1800-103-3474 E-mail : mail@singerindia.com | Website : www.singerindia.com

CIN: L52109DL1977PLC025405

FINANCIAL EXPRESS



SINGER

SINGER INDIA LIMITED Regd. Office & Head Office: A-26/4, 2nd Floor, Mohan Cooperative

Industrial Estate, New Delhi-110044 Tel: +91-11-40617777, Toll Free No. 1800-103-3474 E-mail: secretarial@singerindia.com, mail@singerindia.com Website: www.singerindia.com (CIN: L52109DL1977PLC025405)

NOTICE TO SHAREHOLDERS Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies

Act, 2013 read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Account, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended, notified by the Ministry of Corporate Affairs effective from September 7, 2016 and amendments Pursuant to the Rules, Equity Shares of the Company, in respect of which dividend

declared for the financial year 2015-16, has remained unclaimed or unpaid for sever consecutive years or more, are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Account established by the Central Government, after completion of seven years. The Company has communicated individually to the concerned shareholders

whose shares are liable to be transferred to the said Demat Account for taking appropriate action(s).

The detail of such shareholders, unclaimed dividend and shares liable for transfer to IEPF Account is available on Company's website i.e. www.singerindia.com for information and necessary action by the shareholders. Concerned shareholder(s) may immediately visit our website to verify the details o

the unclaimed/unpaid dividend and the shares liable to be transferred to IEPF and

approach the Company at the co-ordinates indicated below with necessary documents supporting their dividend claim. Failing receipt of communication by August 17, 2023 the Company will proceed to transfer the dividend and/or shares, by the due dates specified by the Rules or such further extended date as may be applicable, for necessary compliance. In this connection, please note that: For shares held in physical form: New share certificate(s) will be issued and

transferred subsequently to the Demat account of the IEPF Authority without any further notice. Further, upon issue of such new share certificate(s) the original share certificate(s) which are registered in your name will stand automatically cancelled and deemed to be bad delivery.

. For shares held in electronic mode: The shares will be directly transferred to the Demat Account of the IEPF Authority with the help of Depository Participant(s) without any further notice.

The members may further note that the details made available by the Company on its website shall be deemed as adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for transfer of shares to IEPF. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF Authority pursuant to the said Rules. The Unclaimed dividend amount and the shares transferred to IEPF, may be claimed by the concerned shareholder from the IEPF Authority by following the procedure prescribed under the

For any queries on the subject matter, you may contact Secretarial Department at A 26/4, 2nd Floor, Mohan Cooperative Industrial Estate, New Delhi - 110044, Phone: 011-40617777; Email: secretarial@singerindia.com and Registrar & Share Transfer Agent ("RTA"), MCS Share Transfer Agents Ltd. at F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi -110020. By Order of the Board

For Singer India Limited Rickee Bisla

Place: New Delhi Dated: 16.06.2023 Company Secretary

AMJ LAND HOLDINGS LIMITED

CIN: L21012MH1964PLC013058 Registered Office: Thergaon, Pune - 411033. Tel.: 020-30613333 Fax: 020-40773388 Website: www.amjland.com, E-mail: admin@amjland.com

NOTICE

[FOR TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)]

Notice is hereby given that pursuant to applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended ("the Rules"). The Rules, interalia, contain the provision for transfer of all such share(s) in respect of which dividend(s) has not been paid or claimed by the Shareholders for Seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company in favour of the Investor Education and Protection Fund (IEPF). Pursuant to the said rules, the Company has already sent an individual

communication letters to those the Shareholders who had not claimed the dividends for Seven consecutive years starting from the financial year 2015-16 and whose shares were liable to be transferred to IEPF, are requested to claim the same and the details of Shareholders whose shares were liable to be transferred to IEPF authority have been uploaded on the website of the Company at www.amiland.com. The Shareholders are requested to note that in case the Company/Registrar and

Transfer Agent does not receive any communication from the concerned Shareholders by 05° October, 2023, the Company shall, with a view to adhering with the requirements of the Rules, transfer the shares, including all benefits accruing on such shares to IEPF as per timelines and procedure prescribed in the Rules, without giving any further notice to the Shareholders and no liability shall lie against the Company in respect of equity shares so transferred. Henceforth onwards, if any Dividend declared by the Company on such shares shall

be credited to IEPF authority. No claim shall lie against the company in respect of such Dividend on the shares Transferred to IEPF. The Shareholders may claim the amount of dividend and shares transferred to IEPF authority, by making an application to IEPF authority in e-form-IEPF-5 as per the rules. The said form is available on the website of the IEPF authority viz., www.iepf.gov.in.

In case of any queries or any clarification/assistance in this regard, the concerned Shareholders are requested to contact to the Company / KFin Technologies Limited:

The Secretarial Department AMJ LAND HOLDINGS LIMITED Regd. Off.: Thergaon, Pune 411 033.

Tel.: 020-30613333 Email: admin@amiland.com / secretarial@pudumjee.com

Unit: AMJ Land Holdings Limited Selenium Tower B. Plot 31-32. Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 Toll Free No.: 1800-3094-001 Email: einward.ris@kfintech.com

Registrar and Transfer Agent:

KFin Technologies Limited

For AMJ LAND HOLDINGS LIMITED

Shrihari Waychal Company Secretary

PUDUMJEE PAPER PRODUCTS LIMITED

CIN: L21098PN2015PLC153717 Registered Office: Thergaon, Pune - 411033. Tel.: 020-30613423, Fax: 020-40773388 NULLE E-mail: investors.relations@pudumjee.com Website: www.pudumjee.com

NOTICE

[FOR TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)]

Notice is hereby given that pursuant to applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended ("the Rules"). The Rules, inter alia, contain the provision for transfer of all such share(s) in respect of which dividend(s) has not been paid or claimed by the Shareholders for Seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company in favour of the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Pursuant to the said rules, the Company has already sent an individual communication letters to those the Shareholders who had not claimed the dividends for Seven consecutive years starting from the financial year 2015-16 and whose shares were liable to be transferred to IEPF, are requested to claim the same and the details of Shareholders whose shares were liable to be transferred to IEPF authority have been uploaded on the website of the Company at www.pudumjee.com. The Shareholders are requested to note that in case the Company/Registrar and

Transfer Agent does not receive any communication from the concerned Shareholders by 05th October, 2023, the Company shall, with a view to adhering with the requirements of the Rules, transfer the shares, including all benefits accruing on such shares to IEPF as per timelines and procedure prescribed in the Rules, without giving any further notice to the Shareholders and no liability shall lie against the Company in respect of equity shares so transferred. Henceforth onwards, if any Dividend declared by the Company on such shares shall be

credited to IEPF authority. No claim shall lie against the company in respect of such Dividend on the shares Transferred to IEPF. The Shareholders may claim the amount of dividend and shares transferred to IEPF authority, by making an application to IEPF authority in e-form-IEPF-5 as per the rules. The said form is available on the website of the IEPF authority viz., www.iepf.gov.in.

In case of any queries or any clarification/assistance in this regard, the concerned Shareholders are requested to contact to the Company / KFin Technologies Limited :

The Secretarial Department PUDUMJEE PAPER PRODUCTS LIMITED Regd. Off.: Thergaon, Pune - 411 033.

Tel.: 020-30613423 Email: investors.relations@pudumjee.com

KFin Technologies Limited Unit: Pudumjee Paper Products Limited Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 Toll Free No.: 1800-3094-001 Email: einward.ris@kfintech.com

Registrar and Transfer Agent:

For PUDUMJEE PAPER PRODUCTS LIMITED

Place: Pune Date: 16"June, 2023

Vinay Jadhav Company Secretary

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR SANJEEVINI MEDLIFE HOSPITALS (INDIA) PRIVATE LIMITED (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

with PAN/ CIN/ LLP No.

2.	Address of the registered office	No.760, 7th Main, Last Bus Stop, Mahalakshmi Layout,Bangalore - 560086	
3.	URL of website	https://insolvencyandbankruptcy.in/sanjeevini- medlife-hospitals-india-pvt-ltd/	
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	Bangalore	
5.	Installed capacity of main products/ Services	55 Bedded Hospital, 1 Pharmacy and 1 Laboratory	
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	The annual turnover for the FY 2021-22 is Rs. 18.01 crores and for the FY 2022-23 was Rs. 14.76crores.	
7.	Number of employees/ workmen	There are a total of 153 employees listed in the Employee Directory of the Corporate Debtor.	
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at:	The last Audited Balance sheet available with the undersigned is of FY 2020-21 and 2021-22 other relevant details are available at - https://insolvencyandbankruptcy.in/sanjeevinimedlife-hospitals-india-pvt-ltd/ Or email at sanjeevinimedlife.ibc@gmail.com	
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	https://insolvencyandbankruptcy.in/sanjeevini-	
10.	Last date for receipt of expression of interest	12-Jul-23	
11	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	22-Jul-23	
12	Last date for submission of objections to provisional list		
13.	Process email id to submit EOI	sanjeevinimedlife.ibc@gmail.com	
Date 17/06/2023 Place - Bangalore		Suresh Kannan Resolution Professional in the matter of Sanjeevini Medlife Hospitals (India) Private Limited	

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Particulars	March 31, 2023	March 31, 2022
Weighted average number of equity shares used in computation of basic earnings per share	209,27,41,018	209,27,41,018
Potential equity shares arising out of the Employees		
Stock Option Scheme	85 3	3 35
Weighted average number of equity shares used in computation of diluted earnings per share	209,27,41,018	209,27,41,018
Earnings used in the computation of basic earnings per share (₹ in Crore)	775.09	44.98
Earnings used in the computation of diluted earnings per share (₹ in Crore)	775.09	44.98
Nominal Value of share (in ₹)	1.00	1.00
Basic earnings per share (in ₹)	3.70	0.21
Effect of potential equity shares for ESOS	25	2-3
Diluted earnings per share (in ₹)	3.70	0.21

17. Corporate social responsibility Operating expenses include ₹ 1.86 Crore (Previous Year ₹ 6.06 Crore) for the year ended March 31, 2023 towards

Corporate Social Responsibility (CSR), in accordance with the Companies Act, 2013. The Bank has spent 2.02 % of its average net profit for the last three financial years as part of its CSR for the year ended March 31, 2023. The Bank is currently in the process of evaluating strategic avenues for CSR expenditure in order to deliver maximum Details of amount spent during the year towards CSR are as under:

For the year ended March 31, 2023

		Paid	Yet to be paid	Total
I)	Construction / Acquisition of any assets	0.60	33	0.60
ii)	For purposes other than (i) above	1.26	1	1.26
or	the year ended March 31, 2022	17 1 200000	PROPERTY AND ADDRESS OF THE	[₹.in Crore
		Paid	Yet to be paid	Total
i)	Construction/Acquisition of any assets	3.65	14	3.65
ii)	For purposes other than (i) above	2.41	88	2.41

Protection Fund by the Bank 19.Operating Leases

Lease payments for assets taken on operating lease are recognised as an expense in the Profit and Loss Account as per the lease terms. During the year an amount of ₹ 108.86 Crore (Previous year: ₹ 100.62 Crore) was charged to

20. Disclosure as to Rule 11(e) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 The Bank, as part of its normal banking business grants loans and advances, makes investment, provides

guarantees to and accept deposits and borrowings from its customers, other entities and persons. These transactions are conducted after proper due diligence and ensuring adherence to all regulatory requirements including "Know Your Customer" guidelines.

Other than the transactions described above which are carried out in the normal course of business, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or deposits or any other sources or kinds of funds) by the Bank to or in any other persons or entities, including foreign entities ("intermediaries") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall lend or invest in party identified by or on behalf of the Bank ("Ultimate Beneficiaries"). The Bank has also not received any funds from any parties (Funding Party) with the understanding that the Bank shall whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entitles identified by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.. 21. Proposed Dividend

The Board of Directors has proposed a dividend of Rs. 0.30 per Equity share (30%) (Previous year Nil) for the year ended March 31, 2023, subject to the approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting. In terms of revised Accounting Standard (AS) 4 'Contingencies and Events occurring after Balance Sheet date' as

notified by the Ministry of Corporate Affairs through amendments to Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016, dated March 30, 2016, proposed dividend including dividend distribution tax of Rs.62.78 Crore is not recognized as liability as on March 31, 2023. However, effect of the proposed dividend has been reckoned in determining capital funds in the computation of capital adequacy ratios as at March 31, 2023. 22. Figures of the previous year have been regrouped to conform to the current year presentation

wherever necessary.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of The South Indian Bank Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

We have audited the standalone financial statements of The South Indian Bank Limited ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2023, the Profit and Loss Account, the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the standalone financial statements, including a summary of significant accounting

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 2013 ('the Act') and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act, read with rules thereunder, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2023, and its profit and its cash flows for the

year ended on that date. We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs)

specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those SAs are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements' section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the "Code of Ethics" issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements under the provisions of the Act, and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial

Key Audit Matters

Key Audit Matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements for the financial year ended March 31, 2023. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and results of our audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, provide the basis in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate

opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters:

How our audit addressed the Key Audit **Key Audit Matters** Matters Classification of Advances, identification of non-performing advances, Income Recognition, and provisioning on Advances (Refer Schedule 9, Note 3 of Schedule 17 and Note 4 of Schedule 18A to the

uarantees and Unsecured advances:

standalone financial statements)

RBI prescribes the prudential norms for income Reco- classification benefit extended on restructured advances gnition, Asset Classification and Provisioning of non- | under RBI's COVID-19 Regulatory Package. forming assets (including circulars in relation to | Understanding, evaluation and testing the design and

rovision required against each Non-Performing Lassumptions used by the Bank for such estimate. Asset ("NPX") applying both quantitative as well as . Testing of application controls on sample basis qualitative factors prescribed by the regulations. The Including testing of automated and manual controls tress and liquidity concerns in certain sectors.

qualitative factors and is subject to the minimum the system for income recognition, classification into ovisioning norms specified by RBI and approved | performing and nonperforming Advances and policy of the Bank in this regard. he Management of the Bank also makes an .

Completeness and timing of recognition of the Bank. These procedures included:

Advances include Bills purchased and discounted, Our audit approach / procedures included the following Cash credits, Overdrafts, Loans repayable on demand |- Understanding and considering the Bank's accounting and Term loans. These are further categorized as policies for NPA identification and provisioning and assessing secured by Tangible assets (including advances compliance with the prudential norms prescribed by the against Book Debts), covered by Bank/Government RBI (IRACP Norms) including the additional provisions

made on advances and additional provisions and asset

COVID-19 Regulatory Package - Asset Classification | operating effectiveness of key controls (including application and Provisioning) (IRACP Norms) and prescribes controls for system driven identification of NPAs) over ne minimum provision required for such assets. approval, recording, monitoring and recovery of loans, The identification of performing and non-performing imonitoring overdue / stressed accounts, identification of advances (including advances restructured accounts INPA, provision for NPA, valuation of security and collateral under applicable IRACP Norms) involves establish and identification and provisioning of impaired accounts ment of proper systems, controls mechanism, and | based on the extant guidelines on IRACP laid down by the the bank is required to apply significant degree of RBI. Further obtained an understanding of the contingency adgement to identify and determine the amount of provision carried by the Bank and verified the underlying

isk of identification of NPAs is affected by factors like reports and system reconciliations, in relation to income recognition, asset classification, provisioning pertaining The provision on NPA is estimated based on ageing to advances and investments and compliances of other and classification of NPAs, recovery estimates, regulatory guidelines issued by the RBI nature of loan product, value of security and other Testing on sample basis the accuracy of the data input in

provisioning in accordance with the IRACP norms. Selected the sample borrowers based on quantitative and issessment of the impact on borrowers' accounts qualitative risk factors for their assessment of appropriate which were restructured as per RBI Circulars issued classification as NPA including computation of overdue ageing to assess its correct classification and provision ignificant judgements and estimates for NPA amountasperextantIRACP norms and the Bank policy. identification and provisioning could give rise to Performed other procedures including substantive audit procedures covering the identification of NPAs by

on-performing assets in accordance with criteria (a) Considering testing of the exception reports generated from the application software and the systems Measurement of the provision for non-performing | where the advances have been recorded;

assets based on loan exposure, ageing and classification of the nam realizable value of security;

Place: Pune

Date: 16"June, 2023

nrealized income on the NPAs Since the identification of NPAs ing of advances arising out of COVID-19 pandemic) requires proper mechanism and significant level of estimation and given its including possible observation by RBI which could result into statements, we have ascertained

as a key audit matter.

(b) Considering the accounts reported by the Bank and other banks as Special Mention Accounts ("SMA") in RBI's central repository of information on large credits (CRILC) to identify stress; Appropriate reversal of (c) Reviewing account statements, appraisal note, audited financial

statements, drawing power calculation, security and other related documents and information of the sample borrowers selected based on quantitative and qualitative risk factors: including additional provisions [d] Reading of minutes of management committee and credit

committee meetings and performing inquiries with the credit and risk departments to ascertain if there were indicators of stress or an occurrence of an event of default in a loan account or any product; (e) Considering Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit, significance to the overall audit, Concurrent Audit, stock and receivable audit and credit appraisal as per the policies and procedures of the Bank; (f) Considering the RBI Annual Financial Inspection report on the

disclosure in the financial Bank, the bank's response to the observations and other communication with RBI during the year; identification of NPAs and (g) Examination of advances including stressed advances on a sample provisioning against such NPAs basis with respect to compliance with the RBI Master Circulars / Guidelines.

For NPAs identified, we, based on our sample factors including stressed sectors and account materiality, tested the asset classification dates, value of available security and provisioning as per IRACP norms. We recomputed the provision for NPA after considering the key input factors and compared our measurement outcome to that of system-generated reports and statements prepared by management. Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing

control system to comply with relevant RBI

were selected after ensuring that all the categories of

investments (based on nature of security) were

We assessed and evaluated the process of

identification of NPIs and corresponding reversal of

We carried out substantive audit procedures to

ecompute independently the provision to be

maintained in accordance with the circulars and

directives of the RBI. Accordingly, we selected

samples from the investments of each category and

tested for NPIs as per the RBI guidelines and

recomputed the provision to be maintained in

accordance with the RBI Circular for those selected

We tested the mapping of investments between

financial statement preparation software to ensure

compliance with the presentation and disclosure

covered in the sample;

sample of NPIs

ncome and creation of provision

Investments (Refer Schedule 8, Note 2 of Schedule 17 and Note 3 of Schedule 18A to the standalone investments include investments made by the Bank in [Our audit approach/procedures included the following: various Government Securities, Bonds, Debentures, We evaluated and understood the Bank's internal

securities. These are governed by the circulars and guidelines regarding valuation, classification,

directives of the RBI. These directions of RBI, inter alia, identification of NPIs and provisioning/depreciation cover valuation of investments, classification of related to investments investments, identification of non-performing - We assessed and evaluated the process adopted nvestments (NPI), nonrecognition of income and for collection of information from various sources for provisioning against NPI. determining market value of these investments; westments are classified into 'Held for Trading For the selected sample of investments in hand, 'HFT'), 'Available for Sale' ('AFS') and 'Held to Maturity' we tested accuracy and compliance with the RBI HTM') categories at the time of purchase. Master Circulars and directions by re-performing vestments, which the Bank intends to hold till valuation for each category of the security. Samples

maturity are classified as HTM investments. westments classified as HTM are carried at amortised cost. Where in the opinion of management, a diminution, other than temporary, in the value of investment has taken place, appropriate provisions are made. nvestments classified as AFS and HFT are marked-to market on a periodic basis as per the relevant RBI

Shares, Security receipts and other approved

The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves. collection of data/information from various sources such as FBIL/FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, inancial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of

transactions, investments on hand and degree of egulatory focus, this has been determined as a Key the Investment application software and the Audit Matter Accordingly, our audit was focused on valuation of nvestments, classification, identification of NPI and requirements as per the aforesaid RBI provisioning related to investments.

ii) Assessment of Provision for Taxation (including Deferred Tax Assets) (Refer Note 14 of Schedule 17 and Note 3 of Schedule 18B to the standalone financial statements)

This matter has been identified as a Key Audit Matter | Our key audit procedures includes: due to the significant level of management a Obtaining an understanding of the Bank's process judgement required in the estimation of provision for income taxes including any write back of provisions, due to the following factors

The Bank's assessment of provision is based on positions leading to multiple disputes / litigations

Provision for tax involves interpretation of arious rules and law. It also involves consideration of the complex issues in on-going disputes and years; disclosures of related contingencies.

Assessment of Liability, Adequacy of provisions and Adequacy of disclosures for measuring such

assessment of its recoverability within the allowed time frame requiring significant estimate of the inancial projections which are approved by the Bank's Board of Directors, availability of sufficient correspondence with tax authorities. significant judgements in the interpretation of tax and estimates of taxable incomes for future periods as regulations and tax positions adopted by the Bank. natter is considered a Key Audit Matter

Schedule 18B to the standalone financial statements)

acknowledged as debt and other matters under

dispute which involve significant judgement to

determine the possible outcome of these disputes.

There is a high level of judgement required in

estimating the level of provisioning for the above.

The Bank's assessment is supported by the facts of

matter, their own judgement, interpretation and

identical issues, and advice from legal and

independent tax consultants wherever necessary.

Accordingly, unexpected adverse outcomes may

Accordingly, our audit was focused on analyzing the

facts of subject matter of each dispute, issue and

matter under consideration and judgements/

IT systems and controls followed by the bank are

controls. Therefore on account of these factors, there

(v) Information Technology ('IT') Systems and Internal Controls for financial reporting

exists a risk that gaps in the IT control environment | the Bank's IT access controls over the information

interpretation of law involved.

state of affairs presented in the Balance Sheet.

and respective internal controls for determining tax liabilities, tax provisions, deferred tax assets and contingent liabilities in respect of the major litigations n order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances; facts of matter, existence of multiple uncertain tax | b. Analyzing the facts of subject matter of each dispute,

issue and matter under consideration and idgements/interpretation of law involved. c. Understanding the current status of the litigations. tax assessments in respect of each matter for different

d. Discussion with appropriate senior management personnel, independently assessed management's Further, significant judgements are also involved in estimate of the possible outcome of the disputed cases; and evaluated the Management's underlying key assumptions in estimating the tax provisions. e. Considering legal precedence and other rulings in evaluating management's position on these uncertain Recognition of deferred tax assets involves the tax positions, the provisions made, and/or write back

Review of the reconciliation of the underlying tax balances to supporting documentation, including axable income in the future and also involving | g. Obtaining the components of deferred tax assets

approved by the Board of Directors. Considering the judgement involved in h. Evaluating management assessment for estimating deferred tax assets. Assessing the period over which the deferred tax assets would be recovered against future taxable

> Verifying the disclosures related to significant itigations and taxation matters in the standalone inancial statements

iv) Litigation, Claims and Contingent Liabilities (Refer Schedule 12, Note 15 of Schedule 17 and note 14 of

Assessment of provisions and Contingent liabilities | Our audit approach/procedures included the in respect of certain litigations including Indirect | following: Testing the design and operating effectiveness of Taxes, various claims filed by other parties not

the Bank's key controls over the estimation,

monitoring and disclosure of provisions and

contingentliabilities

Obtaining an understanding of internal controls in relation to creation of provisions and Contingent abilities in respect of the major litigations before various judicial forums including Indirect Taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debts relevant to audit in order to design our audit analysis of the complex issues under dispute, past procedures that are appropriate in the circumstances; experience and orders of the judicial authorities on Understanding the current status of the litigations/ tax assessments in respect of each matter for different.

Examining recent orders/ communications received significantly impact the Bank's reported profit and from various tax authorities/ judicial forums, judicial pronouncements and follow up action thereon, Evaluating the merit of the issues and subject matter We determined the above area as a Key Audit Matter under consideration with reference to the grounds in view of associated uncertainty relating to the presented therein and available independent legal/ outcome of these matters which requires tax advice including opinion of our internal legal/tax application of judgement in interpretation of law.

> of the subject matter under consideration, the likely outcome and consequent potential outflows on those ssues; and Verification of disclosures related to significant itigations and indirect taxation matters.

Review and analysis of evaluation of the contentions

of the Bank through discussions, collections of details

Obtaining a comprehensive understanding of IT material from a financial reporting perspective, due applications landscape implemented at the Bank, to the pervasive nature and complexity of the IT followed by process understanding, mapping of environment, the large volume of transactions applications to the processes related to financial processed in numerous locations daily and the reporting and understanding financial risks posed by reliance on automated and IT dependent manual | people-process and technology.

Our areas of audit focus included user access - This included testing that requests for access to management, developer access to the production systems were appropriately logged, reviewed and

reporting records being materially misstated.

Appropriate IT general controls and application access rights. We inspected requests of changes to are able to process the data, as required, completely, considered, the control environment relating to accurately, and consistently for reliable financial In addition to the above, we tested the design and n addition, there are increasing challenges to operating effectiveness of certain automated controls

dependent and application-based controls are observation, and re-performance. Due to the pervasive nature and complexity of the IT | performed alternate procedures. vironment as well as its importance in relation to

available to us after the date of this auditor's report.

otherwise appears to be materially misstated.

management and aspects of IT operational controls). environment and changes to the IT environment. authorized. We tested the Bank's periodic review of controls are required to ensure that such IT systems | systems | for approval and authorization. We various interfaces, configuration and other application layer controls identified as key to our audit.

tested IT general controls (logical access, changes

protect the integrity of the Bank's systems and data | that were considered as key internal system controls ince cyber security has become a more significant | overfinancial reporting using various techniques such risk in recent periods. These are key to ensure that IT | as inquiry, review of documentation / record / reports; Where deficiencies and mismatches were identified, we tested compensating controls or

In addition, we understood where relevant, changes accurate and timely financial reporting, we have were made to the IT landscape during the audit period ascertained IT systems and controls as a Key Audit | and tested those changes that had a significant impact on financial reporting. In addition, we relied on management

representation which included IS audit, and also the

The Bank's Management and Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's report including Annexures to that Board's Report, Business Responsibility and Sustainability Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the standalone financial statements, consolidated financial

conducted by the Management.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon. In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements, or our knowledge obtained in the audit or

Information other than the standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance. Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial

The Bank's Board of Directors and management are responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the

financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles. generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 in so far as they apply to the Bank and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by RBI from time to time(the "RBI Guidelines"). This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act, for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, Management and Board of Directors are responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management and board of directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the audit of the Standalone Financial Statements Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole

are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

 Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;

Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has adequate internal financial controls system in place and the operating

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management and board of directors: Conclude on the appropriateness of management's and board of directors' use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our

However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern; Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation. We communicate with Those Charged with Governance regarding, among other matters, the planned scope and

identify during our audit. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements for the financial year ended March 31, 2023 and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. As required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

(a) we have sought and obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory; (b) the transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

(c) The key operations and functions of the Bank are administered, managed and controlled by regional offices and Head Office through centralised systems and processes with automation of critical applications integrated to the software of Core Banking System, and therefore the audit was also carried out centrally based on such centralised systems and processes with automation of critical applications by review of the relevant records, documents and data required for the purposes of our audit available centrally through such applications/platform. Further, we visited 41 major branches to examine the operations and functioning of the branch and review the records/registers/documents maintained at such branches as part of our audit processes and procedures. d) the profit and loss account shows a true balance profit for the year then ended.

3. Further, as required by section 143(3) of the Act, we report that: (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit,

(b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books:

not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

(c) The Standalone Balance Sheet, the Standalone Profit and Loss Account, the Standalone Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account; (d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified

under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, to the extent they are

e) On the basis of written representations received from the directors as on March 31, 2023, and taken on record.

by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2023, from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act; (f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Bank with reference to these standalone financial statements and the operating effectiveness of such controls, refer to We tested the design and operating effectiveness of our separate Report in "Annexure A" to this report;

With respect to the matters to be included in the Auditor's Report under Section 197(16) of the Act:

requirements prescribed under Section 197 of the Companies Act, 2013 do not apply by virtue of Section 35B(2A) of the Banking Regulation Act, 1949, and; With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information

and according to the explanations given to us The Bank has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its standalone financial statements - as per details furnished in Schedule 12 and Sl.no 1 of Note 14 under Schedule 18B to the

foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts - as per details furnished in

Note 15 under Schedule 188 to the standalone financial statements; and There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank. (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in Note 20 of Schedule 18B of the notes to the standalone financial statements, no funds have been advanced or

other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Bank ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries: Further, the management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in in Note 20 of Schedule 188 of the notes to the standalone financial statements, no funds have been received by the Bank from any persons or entities, including foreign entities ("Funding Parties"), with the under-

testing of the automated system driven controls circumstances and according to the information and explanations provided to us by the Management in this regard, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the management representations

Standalone Financial Statements.

accounts using accounting software which has features of recording audit trail (Edit log) facility are applicable to the Bank with effect from April 1, 2023, and accordingly, the requirement of reporting under Rule 11(g) of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is not applicable for the financial year ended March 31, 2023.

CNK & Associates LLP, Chartered Accountants and Varma and Varma, Chartered Accountants, the joint statutory auditors of the Bank, who have expressed an unmodified opinion on those financial statements. Accordingly, we, K Venkatachalam Aiyer & Co. Chartered Accountants, do not express any opinion on the figures reported in the standalone financial statements for the year ended / as at March 31, 2022.

The audit of standalone financial statements of the Bank for the year ended March 31, 2022 was conducted by

Our opinion on the standalone financial statement is not modified in respect of the above matter. Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the standalone financial statements of The South Indian Bank Limited for the year ended March 31, 2023 (Referred to paragraph 1(f) under Report on Other Legal Regulatory requirements in the Independent

Auditors' Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting with reference to standalone financial statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act") We have audited the Internal Financial Controls over Financial Reporting with reference to standalone financial ements of The South Indian Bank Limited ('the Bank') as at March 31, 2023, in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls over Financial Reporting

The Bank's Management and Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the Internal Control over Financial Reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls with reference to Standalone financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting ('the Guidance Note') and the Standards on Auditing as specified under section 143 (10) of the Companies Act, 2013 to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal financial controls and both issued by the Institute of Chartered Accountants of India, Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate Internal

Our audit of internal financial controls with reference to Standalone financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness. exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the

opinion on the Bank's internal financial controls with reference to Standalone financial statements. Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting A bank's internal financial control with reference to Standalone financial statements is a process designed to rovide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of standalone ancial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. The

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit

pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions

financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the bank; and provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or

risk that the internal financial control with reference to Standalone financial statements become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may

Hiren Shah - Partner Membership No: 100052 UDIN: 23100052BGVTUS2499 Place: Thrissur Date: 11th May 2023

Membership No: 018159 UDIN: 23018159BGY0FX2838 Place: Thrissur Date: 11th May 2023 Jimmy Mathew

A. Gopalakrishnan - Partner

Chief Financial Officer Company Secretary For and on behalf of Board of Directors: Salim Gangadharan Murali Ramakrishnan Chairman (DIN: 06796232) MD & CEO (DIN: 01028298)



U85195KA2009PTC049466

IBBI/IPA-001/IP-P-01434/2018 -2019/12277 "IMPORTANT"

whilst care is taken prior to acceptance of advertising

The Bank is a banking company as defined under Banking Regulation Act, 1949. Accordingly, the could result in the financial accounting and systems that are critical to financial reporting. We

> standalone financial statements: The Bank has made provision, as required under the applicable laws or accounting standards, for material

> loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in

> standing, whether recorded in writing or otherwise, that the Bank shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any quarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries and Based on such audit procedures performed, that were considered reasonable and appropriate by us in the

made under subclause (a) and (b) contain any material misstatement. The Board of Directors, in their meeting held on May 11, 2023 have proposed final dividend of ₹ 0.30 per equity share (30%) for the year ended March 31, 2023 amounting to Rs. 62.78 Crores. The proposal is subject to the approval of shareholders at the Annual General Meeting as stated in note 21 of Schedule 18B to the

statements and our auditor's report thereon, the Pillar III disclosures under Basel III Capital Regulation, Leverage Provisions of the Proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 for maintaining books of Ratio, Liquidity Coverage Ratio and Net Stable Funding Ratio. The other information is expected to be made

under the Act.

Financial Controls over Financial Reporting were established and maintained and whether such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to the financial statements and their operating effectiveness. assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks

Bank's internal financial control with reference to Standalone financial statements includes those policies and

of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

ions of the assets of the bank; opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. 2. provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone

disposition of the bank's assets that could have a material effect on the Standalone financial statements. timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to Standalone financial requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to Standalone financial statements to future periods are subject to the

In our opinion, the Bank has maintained, in all material respects, an adequate internal financial controls system with reference to the Standalone financial statements and such internal financial controls with reference to the financial

New Delhi

statements were operating effectively as at. March 31, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. For CNK & Associates LLP For K Venkatachalam Aiyer & Co. **Chartered Accountants Chartered Accountants** ICAI Firm Registration No. 101961W/W-100036 ICAI Firm Registration No. 004610S

Thomas Joseph. K Chithra.H Executive Vice President

Paul Antony Pradeep M Godbole (DIN: 08259944) (DIN:02239492) Benny P Thomas Place: Thrissur



Vinod Francis Joint General Manager

Date: May 11, 2023

V. J. Kurian M George Korah (DIN: 01806859) (DIN: 08207827) R A Sankara Narayanan Radha Unni Director (DIN: 05230407) (DIN:032427691 (DIN: 09448424)



पैटबैक बिजनेस लिमिटेड

सीआईएनः L74999DL1984PLC018747 पंजी. कार्यालय : शॉप नं. 325, प्लॉट नं. 3, अग्रवाल प्लाजा, डीडीए कम्युनिटी सेंटर, सेक्ट्र-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 ईमेलः crazypricingdel@gmail-com, वेबसाइटः www.patback.in

की असाधारण आम बैठक गुरुवार, 13 जुलाई, 2023 को सुबह 11:00 बजे, स्थान 325. प्लॉट नं. ३, अग्रवाल प्लाजा, डीडीए कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली—110085 ("बैठक") में आयोजित की जाएगी। बैठक बूलाने की सूचना सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर कूरियर द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों को भेजी गई है, जिन्होंने कट—ऑफ तारीख यानी जून 09, 2023 डिपॉजिटरी / कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत किया है और सूचना प्रेषित की प्रक्रिया दिनांक 16 जून, 2023 को भौतिक रूप से पूरी की गई। नोटिस कंपनी की वेबसाइट (www.patback.in) पर उपलब्ध है।

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई–वोटिंग") द्वारा बैठक में पारित कर सकते हैं।

शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

ईमेल पते का पंजीकरणः जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते पंजीकृत करा लें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ('आरटीए') के साथ अपडेट करें।

बही बंदी : इसके अलावा नोटिस दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर बही ईजीएम के प्रयोजन के लिए 07.07.2023 से 13.07. 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

> निदेशक मंडल के आदेशानुसार हस्ता / –

दिनांकः 16.06.2023 स्थानः नई दिल्ली

1. मैसर्स पी एस एंटरप्राइजेज ('कर्जदार')

अपने प्रोपराइटर के माध्यम से।

पता - गली नंबर ए-1,

हरिद्वार, उत्तराखंड - 249407

सुभाष नगर, ज्वालापुर,

एलएलपी के पंजीकत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा

के मामले में विल्स एन वे एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी जिसका पंजीकृत कार्यालय : 6/56, दूसरा फ्लोर स्ट्रीट नंबर : 3, 60 फीट रोड, विश्वास नगर

13 की उप-धारा(3) और एलएलपी नियम, 2009

शाहदरा दिल्ली ईस्ट दिल्ली 110032, आम जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एण्ड हरियाणा में आवेदक एलएलपी द्वारा पदनामित साझेदारों द्वारा दी गई सहमति के संदर्भ में पंजीकृत कार्यालय को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' **से "उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के

लेए एलएलपी समझौते में संशोधन की पृष्टि चाहने हेत् एक सुबना दाखिल की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जिसका एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो. तो वह मे अपने हित के प्रभाव से संबंधित प्राश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति व्यक्तिगत रूप से य पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय कंपनी ांजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा, घौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक्कीस (21) दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक (एलएलपी) के उपरोक्त

कृत्ते आवेदक की ओर विल्स एन वे एडवाइँजरी सर्विसेज एलएलर्प

पता : सी-24, चन्द्र नगर, गाजियाबाव

वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए

उत्तर प्रदेश-201011 "फार्म नं. आईएनसी—25ए (कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 41(5)

(ए) के अनुसरण में) क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में कम्पनी प्रधिनियम 2013, की धारा 14 और कम्पनी (गठन) नियम 2014 के नियम 41 के अंतर्गत

स्वरुप रोलिंग मिल्स लिमिटेड (CIN: U27320DL1991PLC148246) जिसका पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नं, 139, अपर प्राचंड फ्लोर, जिफेंस एन्क्लेब, नई दिल्ली—110082 में है, के मामले ह

आम जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी 14 जुन, 2023 को आयोजित आसाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में बदलने के लिए सक्षम बनान हेत ऐसे बदलाव को प्रभावी करने के लिए उपरोक्त कथित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 201: की घारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को आवेदन करने की इच्छक है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के प्रस्तावि परिवर्तन / रिथति से कोई भी हित प्रभावित होने कं संभावना हो, तो वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति व्यक्तिगत रूप जमा कर सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरप भवन, सीजीओ कॉम्प्लॅक्स, नई दिल्ली-110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनो भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक पैटबैक बिजनेस लिमिटेड के कियानी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी

> डिफॅस एन्क्लेव, नई दिल्ली-110092 कत्ते आवेदक की ओर र स्वरुपे रोलिंग मिल्स लिमिटेर

> > विकास स्वरु पूर्णकालिक निवेशव डीआईएन : 00424352

िकम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के

''रा. रा. दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन

नियम 30 के अनुपलन में]

केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा

(4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

एस फ्युल्स प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U74899DL1992PTC050972) पंजीकृत कार्यालय सी/ओ श्री सुनील कुमार अग्रवाल, सी-31, साउथ एक्स्टेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-110049 में है

एतदुद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''रा.रा.क्षेत्र दिल्ली'' से '' उत्तर प्रदेश राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 24.04.2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के पास आवेदन करने का

यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से

सी/ओ श्री सुनील कुमार अग्रवाल, सी-31, साउथ एक्स्टेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-110049 ईमेल: asfuel2019@gmail.com

तिथि: 16.06.2023 स्थानः नई दिल्ली DIN 00710046

"IMPORTANT"

make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एयं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उका अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उका निवमायली के नियम 3 के साथ पंतित तक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफाएल होम फाइनांस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) के प्राधिकृत अधिकारी ने उका अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सचना जरी कर ऋषधारकों को उन्हें जारी की गई संबंधित मांग सुचना(ओं) में वर्षित राहि वापस लीटाने का निर्देश दिया। उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुन: एलद्दारा ऋषधारकों को निर्देश दिया जाता है कि मांग सुचना की विधि से भूगतान की तिथि तक आगे के ब्याज के साथ पहां गीचे दशांई गई राशि का इस सुचना के प्रकाशन से 60 दिनों के पीतर पुगतान करें। ऋगधारकों मांग सूचना की तिथि को बकाबा राशि तथा ऋग राशि के पुनर्भुगतान के लिये प्रस्तायित प्रतिभृति का विवरण इस प्रकार है:

धास्का∠गारन्टरा∕ का ज्ञम	माग सूचना ताख एवं गाश	प्रतिभृति परिसम्पनि (अचल सम्पनि) का विवरण
श्री राजकुमार श्री अर्जुन लाल श्रीमती द्यायंती श्री विशाल वेशाल फुट विश्वर मेक्ट में. 846528)	चीबीस लाख सत्तरह हजार छः सौ इक्यासी मात्र)	सम्पन्नि का सभी भाग तथा हिस्साः वजीत्पुर, आवारीय योजना, फेज-III बनीरपुर, नई हिस्सी, धारत-110052 में पियत फर्सेट ने. 7डी, प्रथम तल, अशेख विधार, कार्मेट श्रीया 274 वर्ग प्यीट, सुपर निर्मित एरिया 280 वर्ग प्रीट।

ऋणधारकों की जीन्त्रिमों एवं लागत पर उकत अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत उकत प्रतिभू परिसम्पवियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। अधिक विवरणों के लिये कृपवा **शास्त्रा कार्यालय:** प्लॉट नं. 30/30ई, ऊपरी भूतल, मैन शिवाजी मार्ग, नजफबद रोड, जगुआर शो रूप के बगल में, मोना नगर, नई दिल्ली में प्राधिकृत अधिकारी अध्या **कॉर्पोरेट कार्बालय**ः आईआईएक्स्स्न टावर, प्लॉट नं, 98, उद्योग विहार, फेन्न-IV, गुड़गाँव, हरियाणा में सम्मर्क करें।

हरता./- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएकएल होम फाइनांस लि. के लिये स्थान : दिल्ली तिथि: 17.06.2023

सावेजनिक स्चना

(दिवाला और ऋण शोध अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 102)

मैसर्स महेश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (कापरिट देनदार) के श्री सौरभ गोयल (व्यक्तिगत गारंटर/देनदार) के लेनदारों के ध्यानार्थ

		L
10	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्री सौर्भ गोयल (बीआईएन : 07119623)
2	व्यक्तिगत गारंटर का पता	एच–2 / 12, सेक्टर–11, रोहिणी, दिल्ली–110085
3	आवेदन मंजूरी के आदेश का विवरण	माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ, न्यायालय—।। ने कार्पोरेट देनदार (मैसर्स महेश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड) व व्यक्तिगत गारंटर औ सौरभ गौयल के विरूद्ध सीपी सं. आईबी 411 (एनडी) 2022 दिनांकित 12 जून, 2023 के माध्यम से ऋणशोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया स्वीकार की
4	आईबीसी, 2016 के तहत व्यक्तिगत गारंटर के संबंध में ऋणशोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया आरंभन की तिथि	
5	समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋणशोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और पंजीकरण संख्या	श्री पबन कुमार जैन IBBI/IPA-001/IP-P01148/201902020/12490
6	समाधान प्रोफेशनल का पता और ई—मेल जैसाकि बोर्ड में पंजीकृत है	पता : 210, नीलकंठ प्लाजा 15, कम्युनिटी सेंटर, पीतमपुरा रोंड नंबर 44, नॉर्थ वेस्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली—110034 ई-मेल }ainchi@hotmail.com
7	के साथ पत्राचार के लिए प्रयोग हेतु पता और ई–मेल	पता : 405, नई दिल्ली हाउस, 27 बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली—110001 ई-मेल : rp.sourabhgoel@gmail.com
8.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	08-07-2023
9.	संबंधित प्रपत्र पर उपलब्ध हैं	https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

12-06-2023 के माध्यम से श्री सौरभ गोयल व्यक्तिगत गारंटर की ऋणशोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया आरंभ करने श्री सौरभ गोयल (मैसर्स महेश इंडस्टीज प्राइवेट लिमिटेड, कार्पोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर) के लेनदारों से अपना दावा आईबीबीआई (कार्पोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटरों हेतू ऋणशोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया), 2019 के विनियन

7(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र "प्रपत्र बी" में 08-07-2023 को अथवा पूर्व प्रमाणों सहित समाधान प्रोफेशनल के प्रविष्टि सं. 7 के सामने वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है। लेनदारों को अपने दावों को प्रमाण के साथ केवल इलेक्टॉनिक साधनों अथवा क्रियर, स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत पत्र द्वारा प्रस्तुत करना होगा। दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

तिथि : 17-06-2023 स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 17.6.2023

आईबीबीआई पंजीकरण क्रमांक : IBBI/IPA-001/IP-P01148/201902020/12490 एएफए की वैधता : 25-05-2024 तक

ई – निविदा सूचना सं.

श्री सौरभ गोयल के समाधान प्रोफेशनव

टीवीसी / जीएसयू / 9 / 2023 दिनांकित 09-06-2023 भारत के राष्ट्रपति के लिए और उन्हीं की ओर से मुख्य परियोजना प्रबंधक / गति शक्ति / त्रिवेन्द्रम डिवीजन, त्रिवेन्द्रम –14 हमारे ई-टेंडर पोर्टल www.ireps.gov.in में दी गई निविदा सूचना के अनुसार निम्नलिखित काये के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करते हैं त्रिवेन्द्रम डिवीजन में गति शक्ति यूनिट में काये के लिए ई-टेंडर के लिए आवेदन के इच्छुक निविदकों / ठेकेदार(रों) को उपरोक्त ई–टेंडर पोर्टल www.ireps.gov.in पर नामांकन करवाना होगा।

कार्य का नाम : अमृत भारत स्टेशन स्कीम फेज-1 निर्माणों के अंतर्गत कलाडी (एएफके) तिरूवल्ला (टीआरवीएल) तथा एट्टूमनूर (ईटीएम) रेलवे स्टेशनों के अला अंगमाली व आईआरएस टाइप के प्लेटफार्म के ऊपर कवर के 2 बेज का निर्माण।

अनुमानित मूल्य (रू. लाख में) : 77.02 धरोहर राशि जमा रू. में : 154100.00 कार्य पूरा करने की अवधि माह में : 12 माह निविदा की अंतिम तिथि

एवं समय: 01-07-2023 के 11.00 बजे निविदा के अनुमानित मुल्य, ईएमडी एव अवस्थिति का विवरण www.ireps.gov.in पर दिया गया है। बोली जमा करने के विवरण के लिए कृपया वेबसाइट पोर्टल www.ireps.gov.in देखें।

Follow us on : w twitter.com/GMSRailways

दक्षिण रेलवे

(गति शक्ति/मदुरई) ई-निविदा सूचना सं.

जीएस-एमडीयू-3बी-2023 तिथि 13.06.2023 भारत के राष्ट्रपति की ओर से मख्य परियोजना प्रबंधक, गति शक्ति, दक्षिण रेलवे, मदुरई-625016 द्वारा हमारी पोर्टल www.ireps.gov.in में निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के अनुसार ई-निविदा आमंत्रित है।

निविदा के लिये आवेदन के इच्छुक निविदाकारों/ठेकेदारों www.ireps.gov.in में सूचीकरण कराना होग तथा केवल ऑनलाइन निविदा ही स्वीकार की

कार्य का नाम: मदुरई मंडल मनापराई रेलवे स्टेशन- ''अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सर्क्युलैटिंग एरिया, स्टेशन भवन, फैसेड तथा प्लेटफार्म का सुधार।

अनुमानित नगदी मूल्य लाख में: रु. 331.80, बोली प्रतिभृति/ईएमडी: रु. 315900/-पूर्णता अवधि माह में: 5 माह

बंद होने/खुलने की तिथि: 5.7.2023 के 15.00

विस्तत विवरणों के लिये वेबसाइट पोर्टल www.ireps.gov.in देखें।

वेबसाइट में बाद में अपलोड की गई किसी भी सुधार अथवा संशोधनों के लिये जारी शुद्धिपत्र देखने का दायित्व निविदाकारों का होगा तथा निविदा जमा करते समय उसका ध्यान रखा जायेगा।

Follow us on : 🏵 twitter,com/GMSRailwa

उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के मामले में

जिसका पंजीकत कार्यालय स्थित है:

आनसर जीनोमिक्स प्राइवेट लिमिटेड

KHLA, फेस-2, नई दिल्ली-110020 मारत,

सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समझ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी अपने पंजिकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "कर्नाटक राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए सोमवार, 20 मई. 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिशन के परिवर्तन की पुष्टि करने की मांग की गई है। कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि

किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर शिकायत दर्जे कर संकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध क कारण उत्लिखित हो, के साथ अपनी आपतियां क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से 14 (चौदह दिनों) के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और एक प्रति के साथ आवेदक कंपनी को उसके पंजीकत

दिनांक: 16.06.2023 राहुल रंगनाथन (निदेशक)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उदघोषणा

धारा 82 Cr. P. C. देखिए मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त मोहन सिंह पुत्र हरिचंद्र, निवासी मकान नं. D-213 मंगोलपुरी, दिल्ली। और दूसरा पता N-232 मंगोलपुरी, दिल्ली। ने FIR No. 1052/2016 U/s 354/354B/506/509 IPC., के अंतर्गत थानाः मंगोलपरी. दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तरी वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त मोइन सिंह मिल नही रही है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त मोहन सिंह फरार हो गई है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रही

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि FIR No. 1052/2016 U/s 354/354B/506/509 IPC., थानाः मंगोलपुरी, दिल्ली के उक्त अभियुक्त मोहन सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 18.07.2023 को या इससे पहले हाजिर हो। आदेशानुसार

> भी पूजा अग्रवाल, (ASJ) कोर्ट नं. 318, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

DP/6570/OD/2023

KVB) Karur Vysya Bank

Smart way to bank

करुर वैश्य बैंक लिमिटेड

एमआरजे टॉवर, तीसरी मंजिल, फैज रोड, करोलबाग (नई दिल्ली।) ११००५ दूरभाष संख्या: ०११ २८७५५७७१८ अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सुचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, २००२ के नियम ९(१) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियो का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, २००२ के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सुचना एतदद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से गारंटीकर्ता(ओ) को सुचित किया जाता है कि नीचे वर्णित

अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार, द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई / चार्ज की गई है जिसका रचनात्मक/भौतिक (जो भी लागू हो) कब्जा करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हारा लिया गया है, जिनका विक्रय सुरक्षित लेनदार हारा 05/07/2023 को "जैसा है जहाँ है", "जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है" आधार पर किया जाएगा। यह विक्रय 31/05/2023 के अनुसार रूपये 39,38,24,436.37 (रूपये उनतालीस करोड अइतीस लाख चौबीस हजार चार सौ छत्तीस और पैसा सैंतीस **मात्र)** की बकाया देनदारी की वसुली के लिए किया जायेगा जो नामतः **(ए) मैसर्स क्वालिटी लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय केडीआईएल हाउस, एफ-८२, शिवाजी प्लेस, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-११००२७ में है (बी) जेटीपीएल टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, जेटीपीएल हाउस, एफ-८२, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, शिवाजी प्लेस, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-११००२७ और (सी) श्री संजय ढींगरा, पुत्र श्री जम्मु राम ढींगरा, मकान नंबर १, ग्राउंड फ्लोर, रोड नंबर ८, पंजाबी बाग, नई दिल्ली- ११००२६ की ओर से 01/06/2023 से भविष्य के ब्याज और देय खर्च/लागत के साथ करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, सिक्योर्ड

आरक्षित मूल्य **रू. १०,२१,००,०००/- (रूपए दस करोड़ इक्कीस लाख मात्र)** होगी और बयाना राशि क. १,०२,१०,०००/- (रूपए एक करोड़ दो लाख दस हजार मात्र) होगी। अचल संपत्ति का विवरण

भूमि नाप २१ कनाल १६ मरला, ३ कनाल ११ मरला जिसमें खेवट/खतौनी नं. १८८/२०१२ खसरा संख्या 9/4/2/2 (1-2), 4/3/2 (2-9) से सम्बंधित और भूमि माप 14 कनाल 2 मरला खसरा नंबर 10/1 (8-0), ९/५/२ (६-२) में खेवत/खतौनी नंबर १८९/२०२ सें सम्बंधित और भूमि माप ४ कनाल ३ मरला यानी 83/204 हिस्सा भूमि माप १० कनाल ४ मरला जिसमें खेवट / खतौनी नं। १८९/२०२ खसरा संख्या ९/६/२ (५-४), ७/१ (५-०) से सम्बंधित आवासीय भूखंड जो की जेपीटीएल टाउनशिप में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी साइट पर, गाँव खुनी माजरा में , लांडरां रोड, जिला। एस.ए.एस नगर, सेक्टर-११५, तहसील खरड़, मोहाली, पंजाब में स्थित है तथा मेसर्स जेटीपीएल टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। पुर्व:- राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज/स्काई लार्क/खुली भूमि, पश्चिम :- स्वीकृत मार्ग, दक्षिण : जेटीपीएल क्लब हाउस

बिक्री के नियमों और शर्तों के विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे बैंक/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी www.kvb.co.in/Property में दिए गए नीलामी के तहत लिंक को और सेवा प्रदाता मेसर्स श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड के वेब पोर्टल <u>https://www.eauctions.samil.in</u> पर भी देखें।

सरफेसी अधिनियम, २००२ के नियम ९(१) के तहत वैधानिक १५ दिनों का नोटिस उतदद्वारा उधारकर्ताओं और जमागतदारों को ई-गीलामी की तारीख़ से पहले ब्याज सहित और सहायक खर्चों के साथ उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान करने के लिए को सूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर

अनुसुचित संपत्ति की नीलामी/बिक्री करूँ दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई भी हो, ब्याज और लागत

सहित वसल किया जाएगा। दिनांक : 14/06/2023 प्राधिकृत अधिकारी करुर वैश्य बैंक लिमिटेड, स्थान : दिल्ली

> फॉर्म ए सार्वजनिक सूचना (भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियम 6 के अंतर्गत)

(कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016)

धारित्रिमा ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

धारित्रिमा ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड 2. कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि 10 फरवरी 201⁻ प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार कंपनी रजिस्टार, दिल्ली कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या / U10100DL2011PTC 213669 सीमित देयता पहचान संख्या कॉर्पोरेट देनदारों के पंजीकत कार्यालय और प्रधा प्लॉट नं. 25, डीएसआईआईडीसी शेड, स्कीम— II कार्यालय (यदि कोई हो) का पता बेसमेंट, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज- II नई दिल्ली 110020 भारत 09 जून , 2023 (16 जून, 2023 को प्राप्त आदेश) दिवाला समाधान प्रक्रिया के बंद होने की अनुमानित तिथि अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने आलोक कमार अग्रवाल वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण ःआईबीबीआई / आईपीए-001 / आईपी-पी00059 / 2017 -2018 / 101379. बोर्ड के साथ पंजीकृत अंतरिम समाधान पेशेवर क 605, सनसिटी बिजनेस टॉवर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर पता और ई–मेल 54, गूड़गांव, हरियाणा, 122002, ई—मेलः alok@insolvencyservices.in अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए सी-100, सेक्टर-2, नोएडा, यूपी-201301 उपयोग किया जाने वाला पता और ई–मेल ई–मेलः dharitrimaa.cirp@gmail.com दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा सुनिश्चित धारा 21 की उप–धारा (६ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों के वर्ग, यदि कोई हो, ऋणशोधन अक्षमता पेशेवरों के नाम जिन्हें एक वर्ग में ऋणदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चिह्नित किया गया है।(प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)

(ख)एन.ए. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 09 जून, 2023(16 जून, 2023 को प्राप्त आदेश) को धारित्रिमा ऊज प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। धारित्रिमा ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को एतद्वारा प्रविष्टि संख्या 10 के सामने उल्लिखित पते पर अंतरिम समाध पेशेवर को 30 जून, 2023 को या उससे पहले सबूत के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

(ibbi.gov.in)

दिनांकः 17.06. 2023 पंजीकरण सं:आईबीबीआई / आईपीए-001 / आईपी-पी00059 / 2017-2018 / 10137 पताः 605, सनसिटी बिजनेस टॉवर, गोल्फ कोर्स रोड. **स्थान**ः गुड़गांव सेक्टर 54, गुड़गांव, हरियाणा, 122002

(ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां

SINGER

सिंगर इंडिया लिमिटेड

टेली: +91-11-40617777, टोल फ्री नंo. 1800-103-3474 ई-मेलः secretarial@singerindia.com, mail@singerindia.com वेबसाइटः www.singerindia.com

(CIN: L52109DL1977PLC025405) शेयरधारकों को सूचना

7 सितम्बर, 2016 से प्रमावी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसुचित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 ('नियमावली') यथासंशोधित तथा उसके अंतर्गत किये गये संशोधनों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6)

वर्षों की समाप्ति के बाद केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संस्था निधि ("आईआईपीएफ") खाते में जमा किया जाना है।

कंपनी ने संबंधित शेयरघारकों को व्यक्तिगत रूप से सचित किया है जिनके शेयर उचित कार्यवाही हेत् उक्त ढीमैट खाते में अंतरण के लिए उत्तरदायी हैं।

ऐसे शेयरधारकों, आईईपीएफ खाता में अंतरण के लिये नियत दावा-रहित लाभांश तथा शेयरों

आवश्यक कार्रवाई के लिये उपलब्ध है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ नीचे दर्शाये गये पते पर कंपनी से सम्पर्क करें। 17 अगस्त, 2023, तक प्रत्यत्तर नहीं मिलने पर कंपनी नियमावली द्वारा निर्दिष्ट नियत तिथि अथवा आवश्यक अनुपालन के लिए लागु होने वाली विस्तारित तिथि तक कंपनी लाभांश एवं / अथवा शेयरों के

अंतरण की कार्यवाई करेगी। इस संदर्भ में कृप्या ध्यान रहे कि:--भौतिक पद्धति में घारित शेयरों के लिए: नए शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जारी किए जाएंगे तथा बिना कोई आगे सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में उसे अंतरित किया जाएगा। पुनः ऐसे नवीन शेयर प्रमाणपत्र(वों) के निर्गम पर आपके नाम में पंजीकृत मूल

इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से धारित शेयरों के लिए: उनके शेयर आगे बिना किसी सचना के डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स की मदद से आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में प्रत्यक्ष

रूप से अंतरित किया जाएगा। सदस्यगण पुनः ध्यान रखें कि उसकी वेबसाइट पर कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई विवरणों को

करने के लिए पर्याप्त सूचना माना जाएगा। कृपया नोट करें कि कथित नियमों के अनुसार आईआईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित अदावाकृत लाभांश राशि एवं शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। संबंधित शेयरधारक ऊपर वर्णित आईईपीएफ नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर आईईपीएफ प्राधिकरण से आईईपीएफ में अंतरित दावा-रहित लामांश राशि तथा शेयरों का दावा कर सकते हैं उक्त विषय पर किसी प्रकार की पृछताछ के लिए आप सचिवीय विमाग से ए-25/4, दूसरी

ईमेलः secretarial@singerindia.com और रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए"), बोर्ड के आदेशानसार

कृते सिंगर इंडिया लिमिटेड रिक्की विसला

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 16.08.2023

एतदद्वारा सचना दी जाती है कि मैसर्स पैटबैक बिजनेस लिमिटेड के सदस्यों

किए जाने वाले प्रस्तावों पर वोट देने के उनके अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित संचार, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यूजर आईडी और पासवर्ड शामिल है, एवं बैठक बुलाने की सूचना की एक प्रति के साथ सदस्यों को भेज दी गई है। ई-वोटिंग के लिए संचार का प्रारूप कंपनी की वेबसाइटः www.patback.in और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सोमवार, 10 जुलाई, 2023 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी और बुधवार 12 जुलाई, 2023 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक व्यक्ति, जिसका नाम कट—ऑफ तिथि (रिकॉर्ड तिथि), यानी गुरुवार, 06 जुलाई, 2023 को सदस्यों / लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देता है, केवल वही बैठक में रिमोट ई-वोटिंग / वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर धारण करता है, वह अन्य बातों के साथ-साथ evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में भी प्रदान की गई है जो कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।यदि सदस्य ई–वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग

सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया है, वे भी बैठक में

निदेशक डीआईएन : 00749265 दिनांक: 16.06.2023 थान : नई दिल्ली

पवन कुमार मित्तल

YES BANK

(अधिकृत प्राधिकारी)

दिनांक: 17 जून, 2023

(''बंधककर्ता और गारंटर'') पुत्र - श्री ब्रह्म देव सिंह पता - गली नंबर ए-1, सुभाष नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखंड - 249407. इसके अलावा: औद्योगिक संपत्ति प्लॉट नंबर 33 ई, खसरा नंबर 121 और 124, औद्योगिक पार्क - 4, गांव - बेगमपुर, परगना रुड़की, तहसील और जिला - हरिद्वार,

विषय: प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 8(5) के तहत अचल प्रतिभूत संपत्ति की बिक्री के लिए 15 दिनों की पूर्व बिक्री सूचना। प्रिय महोदय/महोदया, मैसर्स पी.एस. एंटरप्राइजेज, अपने भागीदारों (''कर्जदार'') के माध्यम से द्वारा प्राप्त की गई क्रेडिट सुविधाओं को प्रतिभूत करने के लिए नीचे उल्लिखित

अचल संपत्ति येस बैंक लिमिटेड (इसके बाद ''बैंक'' के रूप में संदर्भित) के पक्ष में गिरवी रखी गई है। बैंक की ओर से प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिभूत

उत्तराखंड - 249403

स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

लेनदार) ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के तहत आप सम्बोधिती को उसमें निर्धारित अवधि के भीतर संपूर्ण देय राशि का भुगतान करने के लिए 08 जुलाई, 2022 को मांग सूचना जारी की थी। चूंकि आप सम्बोधिती उसमें निर्धारित अवधि के भीतर उक्त नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहे, इसलिए बैंक की ओर से प्राधिकृत अधिकारी ने

संदर्भ सं. वाईबीएल/डीईएल/पीकेएस/एएन/2023-2024/17062023-03

उपरोक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत एक आवेदन दायर किया। कि 24.12.2022 को माननीय जिलाधिकारी ने बैंक के पक्ष में एक आदेश पारित किया। कि दिनांक 22.02.2023 को जिलाधिकारी, जिला न्यायालय हरिद्वार द्वारा नियुक्त रिसीवर ने पुलिस सहायता से उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित धारा 14 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आदेश के अनुसरण में नीचे वर्णित अचल संपत्तियों का भौतिक कब्जा ले लिया था और इसे प्राधिकृत अधिकारी को सौंप दिया। एतद्वारा आप सम्बोधिती को फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और जनसत्ता (हिंदी) समाचार पत्र में बिक्री की उद्घोषणा के समाचार पत्र प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है और इसे 17 जून, 2023 संस्करण में प्रकाशित किया जाएगा, बैंक के अधिकृत अधिकारी अब उक्त प्रतिभूत संपत्ति को इस पत्र

की तारीख से 15 दिनों की अवधि के बाद यानी 14 जुलाई, 2023 (नीलामी की तारीख) को रु. 1,93,00,000.00 रुपये (रुपये एक करोड़ तिरानवे लाख मात्र) के आरक्षित मूल्य पर बेचने के लिए बंधक संपत्ति की ई-नीलामी के माध्यम से अनुसूची संपत्ति की बिक्री के लिए आगे की कार्यवाही करेंगे। इसलिए कृपया सुचित हो कि यदि 30 मई, 2023 तक कुल बकाया राशि यानी रु. 1,03,15,528/- (रुपए एक करोड़ तीन लाख पंद्रह हजार पांच सौ

अट्राईस मात्र) तथा आगे के ब्याज और अन्य शुल्क नीलामी की तारीख से पहले आपके द्वारा प्राप्तकर्ता को भुगतान नहीं किया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी ऊपर बताए अनुसार निर्धारित संपत्ति की नीलामी के लिए आगे बढ़ेंगे। संपत्ति की अनुसूची प्लॉट नंबर 33 ई, खसरा नंबर 121,124 (कुल क्षेत्रफल 953.70 वर्ग मीटर) पर औद्योगिक संपत्ति औद्योगिक पार्क 4, ग्राम बेगमपुर, परगना

रुडकी. तहसील और जिला हरिद्वार, उत्तराखंड में स्थित उपरोक्त जानकारी बैंक के पास उपलब्ध अभिलेखों से प्राप्त सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार प्रकट की गई है। कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को सलाह दी जाती

यस बैंक लिमिटेड के लिए

स्थानः नोएडा

है और वे उपरोक्त जानकारी की सटीकता के आधार पर स्वतंत्र सत्यापन और उचित सावधानी के लिए जिम्मेदार होंगे। रोहित निझावन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष

यस बैंक लिमिटेड

YES BANK अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना (प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 9 के तहत) . प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन

अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सुचना। रतद्वारा जनसामान्य और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि क्रम सं. 01 पर **यस बैंक लिमिटेड** (''**प्रतिभूत लेनदार'**') के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा प्रतिभृत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, प्रतिभृत लेनदार के (1) **मैसर्स** पी.**एस. एंटरप्राइजेज ('कर्जदार')** इसके प्रोपराइटर के माध्यम से, (2) श्री **सुरेन्द्र सिंह ('बंधककर्ता तथा जमानती') पुत्र ब्रह्म देव सिंह की ओर 30 मई,** 2023 तक बकाया रु. 1,03,15,528/- (रुपये एक करोड़ तीन लाख पन्द्रह हजार पांच सौ अट्टाईस मात्र) तथा भावी ब्याज, लागतों, प्रभारों एवं उस पर व्ययों की

वसूली के लिए ''जहां है जैसे है,'' ''जो है यही है'', तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर 14 जुलाई, 2023 को बिक्री की जाएगी। सम्पत्तियों के विवरण, आरक्षित मूल्य (जिसके नीचे सम्पत्तियों की बिक्री नहीं की जायेगी तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में विशेष रूप से वर्णित है।				
क्र. सं.	दस्तावेजों के अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण	कब्जे का प्रकार (भौतिक∕रचनात्मक)	आरक्षित मूल्य (रु. में)	ईएमडी (रु. में)
1.	प्लॉट नंबर 33 ई, खसरा नंबर 121, 124 (कुल क्षेत्रफल 953.70 वर्ग मीटर) पर औद्योगिक संपत्ति औद्योगिक पार्क 4, ग्राम बेगमपर.		1,93,00,000.00	19,30,000.00

परगना रुड़की तहसील और जिला हरिद्वार, उत्तराखंड में स्थित

संपत्तियों का निरीक्षण: इच्छुक पार्टियां 6 जुलाई, 2023 को 11:30 बजे पुर्वा. से 04:00 बजे अप. के बीच संपत्तियों का निरीक्षण कर सकती हैं। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 10 जुलाई, 2023 शाम 5:00 बजे तक ● जीलामी बिक्री वाईबीएल के अनुमोदित सेवा प्रदाता, मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कार्यालय बी-704-705, वॉल स्ट्रीट-II, सामने ओरिएंट क्लब, निकट गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद - 380 006, गुजरात के माध्यम से ''ऑनलाइन ई-नीलामी/बोली'' होगी, सहायता के लिए संपर्क नं. : 9374519754. संपर्क व्यक्ति - राम प्रसाद और चिंतन भट्ट मोबाइल नंबर 08000023297/99785 91888, लैंड लाइन नंबर 079-68136837/80/43/44 और साथ ही वेब पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net पर मेल आईडी ramprasad@auctiontiger.net, chintan.bhatt@auctiontiger.net,

support@auctiontiger.net पर/ऑक्शन टाइगर मोबाइल ऐप पर। नीलामी बिक्री 14 जुलाई, 2023 को पूर्वाह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच और यदि बोली नियत समापन समय से पहले अंतिम पांच मिनट में रखी जाती है तो 5 (पांच) मिनट के लिए स्वतः विस्तार के साथ आयोजित की जाएगी। प्रस्तुत किया जाने वाला बोली मुल्य प्राधिकृत अधिकारी ('एओ') द्वारा निर्धारित आरक्षित मुल्य से अधिक होगा और बोली लगाने वाले रुपये 50,000/- (**केवल पचास**

हजार) के गणकों में अपने पस्ताव में और सधार करेंगे। संपत्तियों को एओ द्वारा निर्धारित आरक्षित मुल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। आरक्षित मुल्य से नीचे उद्धत बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और जमा की गई ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा।

 सफल बोलीदाता को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही बंद होने के 24 घंटे के भीतर पहले से भुगतान की गई खरीद राशि (धरोहर राशि सिहत) का 25% भुगतान करना होगा। खरीद मल्य का शेष 75% बैंक द्वारा बिक्री की पृष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के रूप में भगतान किया जाना चाहिए, जैसा कि लिखित रूप में सहमत और पूरी तरह से एओ के विवेक पर हो, ऐसा न करने पर बैंक क्रेता द्वारा पहले से भुगतान/जमा की गई राशि को जब्त कर लेगा। • बोलीदाताओं को बोली प्रपत्रों के लिए और अपनी बोली जमा करने और कार्यवाही में भाग लेने से पहले बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए उक्त वेबसाइट

www.vesbank. in पर जाने की सलाह दी जाती है। बोलियां विधिवत भरे हुए प्रासंगिक विवरणों के साथ केवल निर्धारित प्रारूप(पों) में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएंगी। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत की गई बोलियां/अपूर्ण बोलियां अस्वीकत की जा सकती हैं।

• सभी बोली फॉर्म निम्नलिखित केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियों के साथ होंगे (i) पैन कार्ड (ii) आधार कार्ड/पासपोर्ट (iii) वर्तमान पता प्रमाण (iv) वैध ई-मेल आईडी (v) संपर्क नंबर (मोबाइल, लैंडलाइन) आदि। उक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां ऊपर बताए गए ईमेल आईडी पर जमा की जाएंगी। साथ में बिक्री सुचना में वर्णित प्रत्येक संपत्ति के सामने जमा धरोहर राशि (ईएमडी) ऑनलाइन बोली जमा करने से पहले निम्निलखित खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाएगीः -यस बैंक लिमिटेड, बीबी सीएडी दिल्ली आन्तरिक खाता, चाणक्यपुरी, दिल्ली बैंक तथा शाखा का नाम

यस बैंक लिमिटेड, बीबी सीएडी दिल्ली आन्तरिक खाता

YESB0000003 चाणक्यपुरी, दिल्ली

000389900000074 आईएफएससी कोड खाता सं. डच्छक बोलीदाता को बैंक को स्वीकार्य प्रारूप में ईएमडी जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।

लाभार्थी का नाम

• बोलीदाताओं के पास वैध ई-मेल आईडी होनी चाहिए क्योंकि प्रतिभृत लेनदार/सेवा प्रदाता से सभी प्रासंगिक जानकारी केवल ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।

🖜 संभावित इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी में भाग लेने के लिए ऑनलाइन/व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उपरोक्त विवरण पर सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकते हैं। 🌑 हालांकि, न तो अधिकृत अधिकारी और न ही प्रतिभूत लेनदार या सेवा प्रदाता किसी तकनीकी चूक/बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार होगा। • ई-नीलामी की कार्यवाही बंद होने की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी।

 बिक्री बैंक द्वारा पृष्टि के अधीन है। यद कर्जदार/जमानती ई-नीलामी की नियत तारीख और समय से पहले प्रतिभत लेनदार को देय परी राशि का भगतान कर देते हैं. तो कोई बिक्री एओ के सर्वोत्तम ज्ञान और सुचना के अनुसार, उपर्युक्त संपत्तियों पर कोई अन्य ऋणभार मौजुद नहीं है, हालांकि संभावित निविदाओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी स्वयं की उचित सावधानी बरतें और स्वामित्व/ऋणभारों आदि के संबंध में स्वतंत्र पछताछ करें। उपरोक्त बंधक संपत्ति के संबंध में किसी भी शल्क, ग्रहणाधिकार, ऋणभार, संपत्ति कर या सरकार

 एओं के पास किसी भी निवदा/निवदाओं (संपत्ति में से किसी के लिए) को अस्वीकार करने का अधिकार है या बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी को रद्द कर सकता है। 🔸 बिक्री की शर्तों के अनुपालन पर, एओ क्रेता के पक्ष में 'बिक्री का प्रमाण पत्र' जारी करेगा। स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, वाहन, वैट, टीडीएस आदि से संबंधित सभी खर्च क्रेता यह बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियम 2002 में निर्धारित शर्तों और ऊपर वर्णित शर्तों के अधीन है।

🌘 संपत्तियों के निरीक्षण सहित नीलामी के बारे में किसी भी अन्य जानकारी के लिए इच्छुक निविदाकार श्री रोहित निझावन (एओ) मोबाइल नंबर +919350741339 से सभी कार्य

और किसी को भी किसी भी अन्य देय राशि के लिए एओ उत्तरदायी नहीं होगा। संपत्तियों को सभी मौजूदा और भावी ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वह प्रतिभूत लेनदार को

दिवसों पर सबह 10:30 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। कर्जदार/जमानितयों को बिक्री सचना उपरोक्त को प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए दायित्वधारियों को नोटिस माना जाएगा।

उपरोक्त जानकारी बैंक के पास उपलब्ध अभिलेखों से प्राप्त सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार प्रकट की गई है। संभावित बोलीदाता(ओं)/खरीदार(रों) को सलाह दी जाती है और वे उपरोक्त जानकारी की सटीकता के आधार पर स्वतंत्र सत्यापन और ड्यू डिलिजेंस के लिए जिम्मेदार होंगे। (प्राधिकृत अधिकारी) दिनांक: 17 जून, 2023 यस बैंक लिमिटेड स्थानः नोएडा

प्रपत्र सं. एनसीएलटी ३ए याचिका के विवरण का विज्ञापन [एनसीएलटी, नियमावली, 2016 का नियम 35 देंखे]

सीपी (आईबी) नं. 97/सीएचडी/एचआखाई/2018 में इंटरलाक्युटरी आवेदन सं. 2022 का 1626(माननीय राष्ट्रीय कम्पनी कानून अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ) याचिका की सूचना

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड शक्ति भवन, सेक्टर-6, पंचकुला, हरियाणा-134109 जैसा कि, आईसोलक्स कोर्सन इंडिया इंजीनियरिंग एंड कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, परिसमापन में, वे राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नियमावली, 2016 के नियम 11 के साथ पठित दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 66 एवं 67 के अंतर्गत माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (''एनसीएलटी), चंडीगढ़ पीठ के समक्ष

परिसमापक सीए राजीव बंसल बनाम कोर्सन कोर्विअम कन्स्ट्रक्शन एसए एवं अन्य के माध्यम से ''आईसोलक्स कोर्सन इंडिया इंजीनियरिंग एंड कंस्टक्शन प्रा. लि. शीर्षक से सीपी (आईबी) नं. 97/सीएचडी/एचआरवाई/2018 में इंटरलाक्युटरी आवेदन सं. 2022 का 1626 अपने परिसमापक सीए राजीव बंसल के माध्यम से दाखिल किया है तथा वह माननीय पीठ के समक्ष 19.1.2023 को सुनवाई के लिए आई। कि, माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ़ पीठ द्वारा पारित आदेश तिथि 19.1.2023 के माध्यम से आपको निर्देश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तिथि अर्थात 9.3.2023 को पीठ के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश आपको दिया गया था लेकिन अब, इस मामले की सुनवाई 3.7.2023 को निर्धारित की गई है। तदनुसार, आपको निर्देश दिया जाता है कि माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष 3.7.2023 को व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिवत निर्देशित

किसी वकील के माध्यम से उपस्थित होकर यह कारण बताएं कि क्यों न इस आवेदन को स्वीकार किया जाए, जिसमें विफल रहने पर उसकी सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी। सीए राजीव बंसल

> आइसोलक्स कोर्सन इंडिया इंजीनियरिंग एंड कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड प्रपत्र सं. एनसीएलटी. ३ए

याचिका के विवरण का विज्ञापन [एनसीएलटी, नियमावली, 2016 का नियम 35 देंखे] सीपी (आईबी) नं. 97/सीएचडी/एचआखाई/2018 में इंटरलॉक्युटरी आवेदन सं. 2022

का 1626 (माननीय राष्ट्रीय कम्पनी कानून अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ)

याचिका की सूचना सेवा में. प्रभात कमार श्रीवास्तव आइसोलक्स कोर्सन इंडिया इंजीनियरिंग एंड कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक

डी/4/23, भूतल, डीएलएफ एक्सक्लूसिव, फ्लोर डीएलएफ फेज-5,

साथ ही: विटस केयर, सनसिटी सक्सेस टावर, यूनिट नं. 123, टावर ए, तल 1, गोल्फ कोर्स एक्स्टेंशन रोड, सेक्टर 65, गुरुग्राम, हरियाणा-122018 जैसा कि, आईसोलक्स कोर्सन इंडिया इंजीनियरिंग एंड कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, परिसमापन में, ने राष्ट्रीय

कम्पनी विधि अधिकरण नियमावली, 2016 के नियम 11 के साथ पठित दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 66 एवं 67 के अंतर्गत माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (''एनसीएलटी), चंडीगढ पीठ के समक्ष परिसमापक सीए राजीव बंसल बनाम कोर्सन कोर्विअम कन्स्ट्रक्शन एसए एवं अन्य के माध्यम से ''आईसोलक्स कोर्सन इंडिया इंजीनियरिंग एंड कंस्टक्शन प्रा.लि. शीर्षक से सीपी (आईबी) नं. 97/सीएचडी/एचआरवाई/2018 में इंटरलॉक्युटरी आवेदन सं. 2022 का 1626 अपने परिसमापक सीए राजीव बंसल के माध्यम से दाखिल किया है तथा वह माननीय पीठ के समक्ष 19.1.2023 को सुनवाई के लिए आई।

कि, माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ़ पीठ द्वारा पारित आदेश तिथि 19.1.2023 के माध्यम से आपको निर्देश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तिथि अर्थात् 9.3.2023 को पीठ के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश आपको दिया गया था। लेकिन, अब, इस मामले की सुनवाई 3.7.2023 को निर्धारित की गई है। तदनुसार, आपको निर्देश दिया जाता है कि माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष 3.7.2023 को व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिवत निर्देशित किसी वकील के माध्यम से उपस्थित होकर यह कारण बताएं कि क्यों न इस आवेदन को स्वीकार किया जाए, जिसमें विफल रहने पर उसकी सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी।

कि टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई—400013, सीआईएन नं.: यू67100एमएच2010पीएलसी210201

अधिग्रहण सूचना

(प्रतिभति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम

आइसोलक्स कोर्सन इंडिया इंजीनियरिंग एंड कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड

8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार) जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत एक मांग सूचना दिनांकित 24-03-2023 निर्गत की है, जिसमें ऋणकर्ताओं एवं सह—ऋणकर्ताओं / गारंटरों अर्थात (1) स्व. मेहर सिंह पत्र श्री अवतार सिंह के विधिक उत्तराधिकारी, (2) श्रीमती कमलजीत कौर पत्नी स्व. मेहर सिंह, दोनों निवासीः मकान सं. 94, विद्या विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, अन्य पता यह भी: डी–145, पुष्पांजलि, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 तथा (3) मैसर्स एस के इंडस्ट्रीज, सी–1/12, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110052 को मांग सूचना में अंकित राशि रु. 37,65,550 / -, ऋण खाता सं. 21799086 द्वारा,

का ब्याज तथा दांडिक ब्याज, शूल्कों, लागतों, इत्यादि के साथ, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों

के अंदर, प्रतिभगतान करने को कहा गया था। ऋणकर्तागण निर्धारित देयराशि का प्रतिभगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, 15 जन 2023 को. सांकेतिक / रचनागत अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता

है कि सम्पत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, 24-03-2023 के अनुसार रु. 37,65,550/- की एक राशि तथा राशि पर ब्याज एवं दांडिक ब्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि हेतू टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। संपत्ति की अनुसूची फ्लैट नं. ९४, द्वितीय तल, विद्या विहार, भूखंड सं. ५, पश्चिमी एन्क्लेव, पीतमपुरा,

दिल्ली-110034. अधिक विशिष्ट रूप में 03-10-2017 को पंजीकत उस विक्रय विलेख में

विवरणित है जो कि श्री मेहर सिंह एवं श्रीमती कमलजीत कौर के पक्ष में निष्पादित है।

दिनांकः 15-06-2023

स्थान : दिल्ली

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

सीए राजीव बंसल

द्वारा काउंसल

एतदडारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केंद्र

आनसर जीनोमिक्स प्राइवेट लिमिटेड

तिथि : 17.6.2023

केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक)

पहली मंजिल, ए-83, ओखला इंडस्टीयल एरिया,

कार्यालय में ऊपर उल्लिखित पते पर भी भेजें। आवेदक के लिए और उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली डीआईएन: 08304053

हस्ता. / – प्राधिकृत अधिकारी

(क) प्रासंगिक प्रपत्र और क) भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों को केवल इलेक्टॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ प्रस्तत करना होगा। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिग रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रविष्टि संख्या 12 के सापेक्ष सूचीबद्ध अनुसार एक वर्ग से संबंधित एक वित्तीय लेनदार, फॉर्म सीए में वर्ग एनए के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 के सापेक्ष सूचीबद्ध तीन दिवाला पेशेवरों में से अधिकृत प्रतिनिधि की दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।

पंजी. कार्यालय और मुख्य कार्यालयः ए-26/4, दूसरी मंजिल, मोहन कोऑपरेटिव इंडरिट्रवल एस्टेट, नई दिल्ली –110044

के प्रावधानों के अनुपालन में एतदहारा सूचना दी जाती है। नियमों के अनुसरण में, कंपनी के इक्विटी शेयर जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए घोषित लागांश निरंतर सात वर्षों या उससे अधिक सगय से अदावाकृत या अप्रदत्त है, उन्हें सात

का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.singerindia.com पर उनकी जानकारी तथा शेयरघारकों द्वारा संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ में अंतरण के लिए नियत दावा-रहित/अप्रदत्त लाभांश तथा शेयरों के विवरण की जांच कर लें तथा चनकी लामांश का दावा का समर्थन करने वाली

शेयर प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे तथा उसे गलत ढेलिवरी माना जाएगा।

आईईपीएफ में शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी द्वारा दुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) को जारी

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड, के एफ-65, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 पर सम्पर्क करें।

मंजिल, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली -110044 फोन: 011-40617777;

कंपनी सचिव

www.readwhere.com

पलैट नं, 139, अपर ग्राउंड फ्लोर,

कृते एवं के लिये ए एस फ्युल्स प्राईवेट लिमिटेड हस्ता./-अनूप कुमार शर्मा निदेशक

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers

प्रॉम्मे

चंदि उक्त ऋण्यारक उपरोक्त रूप में आईआईएफएल एचएफएल को मुगतान करने में विफल होते हैं तो आईआईएफएल एचए